



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2243]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2012/कार्तिक 18, 1934

No. 2243]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2012/KARTIKA 18, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2012

**का.आ. 2695(अ).**—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत मुख्य योजना/जोन-“के-1” की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

**संशोधन :**

गांव बापरोला, जोन के-1 स्थित 54.89 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले प्लॉट के भूमि उपयोग को “सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (आवासीय, मनोरंजनात्मक एवं परिचालन सहित)” से “औद्योगिक” (आवासीय, मनोरंजनात्मक एवं परिचालन सहित) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	जोन के-1 की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	स्कीम की सीमाएं
1.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	48.98	औद्योगिक	22.34	उत्तर : नांगलोई नजफगढ़ रोड पूर्व : 45 मीटर मार्गाधिकार वाली प्रस्तावित रोड नजफगढ़ नाला दक्षिण : आवासीय निर्मित क्षेत्र पश्चिम : बापरोला गांव/निर्मित क्षेत्र।
2.	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सामुदायिक स्तर)	0.20	आवासीय	25.42	
3.	मनोरंजनात्मक	2.62	मनोरंजनात्मक	2.62	
4.	परिचालन	3.09	परिचालन	4.51	
<b>कुल</b>		<b>54.89</b>		<b>54.89</b>	

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त संदर्भित अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को उप-निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठा तल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ. 3(47)2011/एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

#### (MASTER PLAN SECTION)

#### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th November, 2012

**S.O. 2695(E).**—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone “K-I” under section 11-A of DD Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, “B” Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this Public Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name and address.

#### Modification :

It is proposed to change the landuse of the plot measuring 54.89 Hect. area from “Public and Semi-Public facilities (including residential, recreational and circulation)” to “Industrial” (including residential, recreational and circulation) at Village Baprola, Zone K-I. The details of proposed change of landuse are as follows :

S. No.	Land use as per ZDP, Zone K-I	Area (in Ha.)	Land uses proposed to be modified	Proposed area (in Ha.)	Boundaries of the Scheme.
1.	Public & Semi-Public facilities	48.98	Industrial	22.34	<b>North :</b> Nangloi-Najafgarh Road
2.	Public & Semi-Public Facilities (Community Level)	0.20	Residential	25.42	<b>East :</b> Proposed Road 45 M ROW Najafgarh Drain <b>South :</b> Residential
3.	Recreational	2.62	Recreational	2.62	Built up area
4.	Circulation	3.09	Circulation	4.51	<b>West:</b> Baprola Village/Built-up area
<b>Total</b>		<b>54.89</b>		<b>54.89</b>	

The Plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Dy. Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[F. No. F. 3(47)2011/MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.